

## प्रेस नोट दिनांक 18.09.21

### सराहनीय कार्य थाना सुनगढी जनपद पीलीभीत।

थाना कोतवाली के मो० बुज कसाबान निवासी अमन उर्फ अक्षय रस्तोगी दिनांक 17.09.21 को लगभग 19.00 बजे मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे तभी थाना सुनगढी पीलीभीत क्षेत्रान्तर्गत होटल सिलवर लीफ के निकट तीन बुलट मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों ने अमन उर्फ अक्षय उपरोक्त के थैले में रखी 03 सोने की चैन की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये व 01 आर्टिफिशियल मंगलसूत्र कीमत लगभग 2000 रुपये, मोटरसाइकिल के कागजात आदि लूट लिये व मारपीट कर फरार हे गये। घटना के संबंध में श्रीमती एकता रस्तोगी पत्नी श्री मनोज कुमार रस्तोगी निवासिनी मोहल्ला बुज कसाबान (झंडे वाला चौराहा) थाना कोतवाली पीलीभीत ने मु०अ०सं० 327/21 धारा 394 आईपीसी प्रतिवादी (प्रचलित हिस्ट्रीशीटर) (1) आकाश मेरठिया (2) एजाज मलिक व (3) उमर शाह खान के विरुद्ध पंजीकृत कराया जिसकी विवेचना व०उ०नि० श्री महेन्द्रपाल सिंह थाना सुनगढी पीलीभीत को सुपुर्द की गयी

#### अनावरण घटना

प्र०सू०रि० के अनुसार वादिनी श्रीमती एकता रस्तोगी के पुत्र अमन उर्फ अक्षय रस्तोगी की एक दुकान शिव ज्वैलर्स ग्राम नौगवां पकडिया मस्जिद रोड पीलीभीत में है। दिनांक 17.09.21 को दुकान में अभि०गण (1) आकाश मेरठिया व (2) एजाज मलिक सोने की चैन खरीदने के बहाने दुकान पर गये और 4 चैन खरीदने के लिए कहा। दुकानदार अमन उर्फ अक्षय रस्तोगी होल सेलर शैली अग्रवाल व सोनू अग्रवाल से 4 चैन लेकर आया। इसी बीच उपरोक्त अभि०गण दुकान से चले गये। दुकान बन्द करके अमन उर्फ अक्षय रस्तोगी मोटरसाइकिल से अपने कर्मचारी शिवम वर्मा को लेकर घर जा रहा था। रास्ते में इन्डियन पेट्रोल पम्प निकट सिलवर लीफ होटल पर पेट्रोल भरवाया और चल दिये। शाम करीब 19.00 बजे घात लगाये उपरोक्त मुल्जिमानों ने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से अमन उर्फ अक्षय रस्तोगी की मोटरसाइकिल रोक दी। थैले में 3 सोने की चैन की कीमती 1.5 लाख व एक आर्टिफिशियल मंगलसूत्र कीमती 2 हजार रुपये गाडी की आरसी, बीमा, डीएल, चार्जर और दुकान की चाबी का गुच्छा थैले में था। जिसे मुल्जिमान लूट ले गये और अमन उर्फ अक्षय रस्तोगी व शिवम को मारा पीटा जिससे उसके हाथ पैर पीठ में गम्भीर चोटें आयीं दोनों का मेडिकल कराया गया। बरामदगी सम्पूर्ण कर ली गयी है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त गण –

- (1) आकाश मेरठिया पुत्र सर्वेश रस्तोगी हाल नि० मो० आसफजान खां चरक का कुआं किराये का मकान थाना कोतवाली पीलीभीत नि० छोटे दूध वाले मो० बेनीचौधरी थाना कोतवाली पीलीभीत एचएस नं० 124A दि० 15.11.2019 उम्र 28 वर्ष  
बरामदगी..... एक सोने की चैन कीमती 50 हजार रुपये आरसी, डीएल, दुकान की चाबी का गुच्छा 17 अदद चाबी चार्जर मोबाईल फोन एक सूती जीन्स का पुराना थैला दुकान
- (2) उमर शाह खान पुत्र श्री अनवर शाह खां नि० मो० मोहममद वासिल थाना कोतवाली पीलीभीत उम्र 38 वर्ष  
बरामदगी ..... एक सोने की चैन कीमती 60 हजार रुपये व एक अदद आर्टिफिशियल मंगलसूत्र कीमती 2 हजार रुपये
- (3) मो० एजाज मलिक पुत्र श्री अबरार अहमद मलिक नि० मो० आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली पीलीभीत उम्र 42 वर्ष  
बरामदगी..... 1 सोने की चैन कीमती 50 हजार रुपये

#### गिरफ्तार व अनावरण करने वाली टीम के सदस्यों के नाम –

1. व०उ०नि० श्री महेन्द्रपाल सिंह थाना सुनगढी जनपद पीलीभीत
2. उ०नि० श्री दीपचन्द्र चौकी प्रभारी आसाम रोड थाना सुनगढी पीलीभीत
3. हे०का० 265 हरेन्द्र सिंह चौकी आसाम रोड थाना सुनगढी पीलीभीत
4. का० 1327 राजू वर्मा थाना सुनगढी पीलीभीत
5. का० 1028 भानू प्रकाश शर्मा थाना सुनगढी पीलीभीत

आपराधिक इतिहास

आपराधिक इतिहास आकाश रस्तोगी उर्फ आकाश मेरठिया पुत्र सर्वेश रस्तोगी उम्र 30 वर्ष नि०मो० आसफजान थाना कोतवाली पीलीभीत हिस्ट्रीशीट खोलने का दिनांक 15.11.2019 एचएस नं० 124/ए थाना कोतवाली पीलीभीत

1. मु०अ०सं० 53/18 धारा 354/504 भादवि थाना कोतवाली पीलीभीत
2. मु०अ०सं० 83/19 धारा 452/504/354डी भादवि थाना कोतवाली पीलीभीत
3. मु०अ०सं० 85/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना कोतवाली पीलीभीत
4. मु०अ०सं० 302/20 धारा 4/25 ए एक्ट थाना कोतवाली पीलीभीत
5. मु०अ०सं० 559/18 धारा 398/401 भादवि थाना सुनगढी पीलीभीत
6. मु०अ०सं० 560/18 धारा 3/25 ए एक्ट थाना सुनगढी पीलीभीत
7. मु०अ०सं० 327/21 धारा 394 भादवि थाना सुनगढी पीलीभीत

आपराधिक इतिहास उमर शाह उर्फ नन्हा पुत्र अनवर शाह नि० मो० वासिल थाना कोतवाली पीलीभीत

1. मु०अ०सं० 418/15 धारा 147/148/364/383/323/506 भादवि थाना कोतवाली पीलीभीत
2. मु०अ०सं० 327/21 धारा 394 भादवि थाना सुनगढी पीलीभीत
3. मु०अ०सं० 3232/2011 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना सुनगढी जनपद पीलीभीत